



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 3] नई दिल्ली, फरवरी 14—फरवरी 20, 2010, शनिवार/माघ 25—फाल्गुन 1, 1931
No. 3] NEW DELHI, FEBRUARY 14—FEBRUARY 20, 2010, SATURDAY/MAGHA 25—PHALGUNA 1, 1931

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications Issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2010

आ.अ. 6.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट तमिलनाडु राज्य की लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2009 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहा है;

और यतः उक्त अभ्यर्थियों में से प्रत्येक को सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण या स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहिता घोषित करता है।

सारणी

क्र. सं.	निरहता का विवरण	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्र. सं. व नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता	निरहता के कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2009	5-श्री पेरुम्बुदुर	श्री विजय कुमार एस., 12/39, सुंगुवर स्ट्रीट, ट्रिप्लिकेन, चेन्नई-600005	अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2.	-वही-	-वही-	श्री कलेइसेल्वन टी., 40-1/46, एन एन गार्डन, 7 वीं लेन, ओल्ड वाशरमेन पेट चेन्नई-600021	-वही-
3.	-वही-	-वही-	श्री बालूडी, 11/22-9, पंजाब गार्डन स्ट्रीट, टी. नगर, चेन्नई-600017	-वही-
4.	-वही-	11-तिरुवन्नामलाई	श्री शिवदेवन एन., 2/9 काल नगर, तिरुवन्नामलाई	-वही-
5.	-वही-	-वही-	श्री हरी कृष्ण एस., अदीमुर ग्राम व पोस्ट, कगिथापट्टरै, अरुन्थाधियार कॉलोनी तिरुपट्टुर तालुक, जिला वेल््लोर	-वही-
6.	-वही-	12-अरानी	श्री हरिराज टी. बी., सं. 3/422, 7वीं स्ट्रीट, राम नगर, मन्निक्कम, चेन्नई-28	-वही-
7.	-वही-	-वही-	श्री वेलयुथम एम., सं. 110 राईस मिल स्ट्रीट, जूस्सी ग्राम व पोस्ट, चेय्यार तालुक, तिरुवान्नामलाई जिला	-वही-
8.	-वही-	15-सलेम	श्री बालसुब्रमणी आर., 48 एफ/403, नाडुथेरू, आर. जी. एस. कॉम्प्लेक्स, कोण्डालमपट्टी बाय पास, सलेम-10	-वही-
9.	-वही-	-वही-	श्री आन्ध्र प्रकाश ए., 39/16, कुंजन स्ट्रीट, सलेम-1	-वही-
10.	-वही-	-वही-	श्री दामोदरन एन. बी., 40/26, रेनडाल्ला गोविंदन स्ट्रीट, शिवपेट सलेम-2	-वही-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.	लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2009	15-सलेम	श्री महेश्वरन वी., 3/176 थालावैपट्टी, सलेम-636302	अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
12.	-वही-	16-नामाक्कल	श्री पी. कार्तिकेयन, सुपुत्र श्री पी. पेरिस्वामी, न्यू नं. 187-2/61 ई, त्रिचि मेन रोड, नामाक्कल तालुक, जिला : नामाक्कल	-वही-
13.	-वही-	-वही-	श्री आर. योगराज, सुपुत्र रमैया, 9/47, मेट्टु स्ट्रीट, पो. मोहनुर, तालुक नामाक्कल, जिला नामाक्कल	-वही-
14.	-वही-	27-चिदम्बरम (अ.जा.)	श्री धर्मलिंगम सी., सुपुत्र वी चिन्नाकुननु, 4/894 अम्बेडकर नगर, ग्राम काटथुपरिगम, पो. अस्थिनापुर, तालुक व जिला अरियालुर	-वही-
15.	-वही-	-वही-	श्री सक्थिवेल पी., सुपुत्र पिच्चईपल्लि, ग्राम कल्लमपुडुर, पो. वारागूर, तालुक कुन्नम, जिला पेरुम्बुलुर	-वही-
16.	-वही-	-वही-	श्री शशीकुमार एस., सुपुत्र श्री साबापथै, 84, मुरुगन कोविल स्ट्रीट, अन्नामलाई नगर (टाउनशिप), चिदम्बरम तालुक, जिला कुड्डालोर	-वही-
17.	-वही-	-वही-	श्री मरुधमुथु वी., सुपुत्र वेलायुथम, मेट्टुपलयम ग्राम, सेन्निवनम पो., अरियालुर तालुक, अरियालुर जिला	-वही-
18.	-वही-	-वही-	श्री मणिकन्दन वी., सुपुत्र वरिसामी, 75/19, वेस्ट स्ट्रीट, मुरुगुर पोस्ट, वृद्धचलम तालुक, कुड्डालोर जिला	-वही-
19.	-वही-	-वही-	श्री कवियरासन एन., सुपुत्र नेदुक्चेजियान, 89/2, सहजानन्द स्ट्रीट, तिरुवेटकलम, अन्नानलई नगर, चिदम्बरम तालुक, कुड्डालोर जिला	-वही-
20.	-वही-	34-विरूधुनगर	श्री कन्नन एस., 48, करुथडैया असारिमार स्ट्रीट, अरुप्पुकोट्टई, विरूधुनगर जिला	-वही-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21.	लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2009	34—विरूधुनगर	श्री सिवकुमार एम.ए., 17, रामासामी कोनार, किनात्रु सन्धु, अवनीयपुरम, मदुरई जिला	अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
22.	—वही—	38—तिरुनेलवेलि	श्री रमेश पांडिया, 67/40 ए, मलयलमेदु, (लाजपती नगर) पेट्टई, तिरुनेलवेलि-4	—वही—
23.	—वही—	—वही—	श्री एम. रामलिंगम, 10, मिशनविलडि मेलुर चैत्तिकुलम, राधापुरम तालुक	—वही—
24.	—वही—	39—कन्याकुमारी	श्री एम्मि, 8/82, पल्लमथुरई पूर्व, पल्लमथुरई, अगस्थीस्वरम तालुक, कन्याकुमारी	—वही—
25.	—वही—	—वही—	श्री सतीश सी., 1/90, मरुकलथालडि, नल्लूर पोस्ट, कन्याकुमारी जिला	—वही—
26.	—वही—	—वही—	श्री सिवकुमार एस., 62/3, इरूलप्पपुरम, कोट्टार पोस्ट नागरकोइल-2	—वही—
27.	—वही—	—वही—	श्री जोमसन एस., 21-121, अम्मि रोड, वत्तकोट्टई, मनारई पोस्ट, करुनाल-629157	—वही—
28.	—वही—	—वही—	श्री जयसिंह के., 3/42ए/3-15 थट्टनविलडि रोड, नॉर्थ सूरनगडी, कन्याकुमारी	—वही—

[सं. 76/तमिलनाडु-लो.स./2009]

आदेश से,

शंगारा राम, प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 8th February, 2010

O. N. 6.—Whereas, the Election Commission of India is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the table below at the General Election to the Lok Sabha, 2009 from the State of Tamil Nadu specified in column (2) and held from the constituency specified in column (3) against his/her name has failed to lodge the account of his/her election expenses as shown in column (5) of the said table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission or after considering the representation made by them, if any, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

Sl. No.	Particulars of Election	Sl. No. & Name of Parliamentary Constituency	Name & Address of Contesting Candidate	Reason for Disqualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	General Election to Lok Sabha, 2009	5-Sriperumbudur	Sh. Vijaykumar S., 12/39, Sunguvar Street, Triplicane, Chennai-600005.	Failure to lodge any account of his election expenses.
2.	-do-	-do-	Sh. Kalaiselvan T., 40-1/46, N. N. Garden, 7th lane, Old, Washermenpet, Chennai-600021	-do-
3.	-do-	-do-	Sh. Balu D., 11/22-9, Punjab Garden Street, T. Nagar Chennai-600017.	-do-
4.	-do-	11-Tiruvannamalai	Sh. Sivadevan N., 2/9, Kalnagar Tiruvannamalai	-do-
5.	-do-	-do-	Sh. Hari Krishnan S., Adhiyur Village and Post, Kagithapattarai, Arunthathiar Colony, Tirupattur Taluk, Vellore District.	-do-
6.	-do-	12-Arani	Sh. Hariraj T.V., No. 3/422, 7th Street, Ram Nagar, Mannivakkam, Chennai-28.	-do-
7.	-do-	-do-	Sh. Velayutham M., No. 110, Rice Mill Street, Dusi Village & Post, Cheyyar Taluk, Tiruvannamalai District.	-do-
8.	-do-	15-Salem	Sh. Balasubramani R., 48F/403, Nadu Theru, RGS Complex, Kondalampatti Bye Pass, Salem-10	-do-
9.	-do-	-do-	Sh. Andhra Prakash A., 39/16, Kunjan Street, Salem-1.	-do-
10.	-do-	-do-	Sh. Dhamodharan N.B., 40/26, Rendalla Govindan St. Shevapet, Salem-2.	-do-
11.	-do-	-do-	Sh. Maheswaran V., 3/176 Thalavaipatti, Salem-636 302.	-do-
12.	-do-	16-Namakkal	Sh. P. Karthikeyan, S/o P. Periasamy, New No. 187-2/61E, Trichy Main Road, Namakkal Taluk, Namakkal District.	-do-

449 GI/10-2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13.	General Elections to Lok Sabha, 2009	16-Namakkal	Sh. R. Yogaraj, S/o Ramaiah, 9/47, Mettu Street, Mohanur Post, Namakkal Taluk, Namakkal District.	Failed to lodge any account of his election expenses.
14.	-do-	27-Chidambaram (SC)	Sh. Dharmalingam C., S/o V. Chinnakannu, 4/894, Ambedkar Nagar, Kattupringiam Village, Asthinapuram Post, Ariyalur Taluk and District.	-do-
15.	-do-	-do-	Sh. Sakthivel P., S/o Pichaipillai, Kallampudur Village, Varagoor Post, Kunnam Taluk, Perambalur District.	-do-
16.	-do-	-do-	Sh. Sasikumar S., S/o Sabapathy, 84, Murugan Kovil Street, Annamalai Nagar, (Township), Chidambaram Taluk, Cuddalore District.	-do-
17.	-do-	-do-	Sh. Marudhamuthu V., S/o Velayutham, Mettupalayam Village, Sennivanam Post, Ariyalur Taluk, Ariyalur district.	-do-
18.	-do-	-do-	Sh. Manikandan V., S/o Veerasamy, 75/19, West Street, Marungur Post, Vridhchalam Taluk, Cuddalore District.	-do-
19.	-do-	-do-	Sh. Kaviyarasan N., S/o Nedunchezhiyan, 89/2, Sahajananda Street, Thiruvetkalam, Annanalai Nagar, Chidambaram Taluk, Cuddalore District.	-do-
20.	-do-	34-Virudhunagar	Sh. Kannan S., 48, Karuthiah Asarimar Street, Aruppukottai, Virudhunagar District.	-do-
21.	-do-	-do-	Sh. Sivakumar M.A., 17, Ramasamy Konar Kinatru Sandhu, Avaniyapuram, Madurai District.	-do-
22.	-do-	38-Tirunelveli	Sh. Ramesh Pandia, 67/40 A, Malayalamedu, (Lajapathi nagar) Peetai, Tirunelveli-4	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23.	General Elections to Lok Sabha, 2009	38-Tirunelveli	Sh. M. Ramalingam, 10 Missionvilai Melur, Chettikulam, Radhapuram Taluk	Failed to lodge any account of his election expenses.
24.	-do-	39-Kanniyakumari	Sh. Emmi, 8/82 Pallamthurai East, Pallamthurai Agastheeswaram Taluk Kanniyakumari.	-do-
25.	-do-	-do-	Sh. Sathees C., 1/90, Marukalthalai, Nallur Post Kanniyakumari District.	-do-
26.	-do-	-do-	Sh. Sivakumar S., 62/3, Irulappapuram, Kottar Post, Nagercoil 2.	-do-
27.	-do-	-do-	Sh. Johnson S., 21-121, Amsi Road, Vattakottai, Mangarai Post, Karungal-629157	-do-
28.	-do-	-do-	Sh. Jayasingh K., 3/42A/3-15 Thattanvilai Road, North Soorangudi, Kanniyakumari.	-do-

[No. 76/TN-HP/2009]

By Order,

SHANGARA RAM, Principal Secy.